

COVID-19 वैक्सीन: तथ्य जानें



तथ्य: COVID-19 टीके से आपको COVID-19 नहीं मिलता।

वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में COVID-19 टीकों में से कोई भी टीका COVID-19 का कारण बनने वाले लाइव वायरस का उपयोग नहीं करता है।



तथ्य: COVID-19 टीके आपको COVID-19 वायरस परीक्षणों पर सकारात्मक परीक्षण करने का कारण नहीं बनाएंगे।

टीके वायरस परीक्षणों पर सकारात्मक परीक्षण पाए जाने का कारण नहीं बनते हैं, जिनका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या आपको **वर्तमान संक्रमण** है।



तथ्य: जो लोग COVID-19 से बीमार हो गए हैं, वे अभी भी टीका लगवाने से लाभान्वित हो सकते हैं।

इस समय, विशेषज्ञों को इस बात का पता नहीं है कि COVID-19 से उबरने के बाद किसी को फिर से बीमार होने से बचाया जाता है। किसी को संक्रमण (प्राकृतिक प्रतिरक्षा) होने से प्रतिरक्षा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। कुछ शुरुआती सबूत बताते हैं कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती है।



तथ्य: टीका लगाना COVID-19 से बीमार होने से बचाने में मदद कर सकता है।

यह जानने का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि COVID-19 आपको कैसे प्रभावित करेगा। यदि आप बीमार पड़ते हैं, तो आप बीमार होने पर अपने आस-पास के मित्रों, परिवार और अन्य लोगों को भी बीमारी फैला सकते हैं। COVID-19 टीकाकरण बीमारी का अनुभव किए बिना एक एंटीबॉडी प्रतिक्रिया बनाकर आपकी रक्षा करने में मदद करता है।



तथ्य: mRNA वैक्सीन प्राप्त करने से आपके DNA में परिवर्तन नहीं होगा।

mRNA (मेसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड) को सबसे आसानी से एक प्रोटीन बनाने के लिए या यहां तक कि सिर्फ एक प्रोटीन के टुकड़े करने के निर्देश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। mRNA किसी व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप (डीएनए) को बदलने या संशोधित करने में सक्षम नहीं है।